

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

खाने की चीजों पर मक्खी बैठने से पेट की बीमारियाँ होती हैं।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

स्वच्छ स्कूल ही इसारी शान है।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

पीने के पानी को हाथ डाल कर गंदा न करें।  
डूबदार लोटा या टूटी तर्पें बतन का इस्तेमाल न करें।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

घागे के पहले और शौच के बाद हाथों को हमेशा साबुन से धोना चाहिए।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

पानी का सदुपयोग करें।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

हमेशा शौचालय में ही पेशाब करें।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

पीने के पानी का बर्तन रोज साफ करें और ढक कर रखें।

नाम: \_\_\_\_\_

कक्षा: \_\_\_\_\_

विषय: \_\_\_\_\_

स्कूल: \_\_\_\_\_

हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें और उसे साफ रखें।